

STL GLOBAL LIMITED

Plot No. 207-208, Sector-58, Faridabad Haryana (INDIA) Tel.: 0129-4275900 - 4275930, Fax: 0129-4275999 E-mail: info@stl-global.com Website: www.stl-global.com

CIN: L51909DL1997PLC088667

Date: 13th February, 2021

From: STL Global Limited

Scrip Code: 532730

To
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai 400 001, MH

Sub: Intimation of Newspaper Publication of Financial Results for the quarter ended 31st December, 2020

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed herewith copies of newspaper clippings of the advertisement published on 13th February, 2021 on the above-mentioned subject matter, in the following newspaper:

- 1. Mint English in all Edition
- 2. Veer Arjun Hindi in Delhi Edition

Kindly take the above information on your record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours truly,

For STL GLOBAL LIMITED

Manil Kr. Nagar (Company Secretary)

Encl: As above

हिंदुस्तान के किसानों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए, तो मोदी कौन हैं: राहुल गांधी

पदमपुर (राजस्थान), (भाषा)। केंद्र के नये कृषि कानुनों के खिलाफ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता राहल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के किसान के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए तो नरेंद्र मोदी कौन हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस ही लेना पड़ेगा।

गांधी गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। किसान आंदोलन को पुरे देश का आंदोलन बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका दायरा अभी और बढ़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की कानून वापस लेने की मांग नहीं मानने की ओर इशारा करते हुए गांधी ने कहा, यह शर्म की बात है। यह आंदोलन फैलेगा। यह आंदोलन किसानों से शहरों में फैलेगा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं कि उन्हें किसानों की बात सुन लेनी चाहिए। अंत में करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान के किसान, मजदुरों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए तो नरेंद्र मोदी कौन हैं। कानुन तो वापस लेने ही पडेंगे। इसलिए कह रहा हं कि आज ले लो ताकि देश आगे बढे ... लेकिन जिद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का किसान और मजदूर आने वाले दिनों में प्रधानमंमत्री को अपनी शक्ति दिखा देगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान का आंदोलन है बस किसान ने अंधेरे में दिया जलाया है। प्रधानमंत्री मोदी आंदोलनरत किसानों को तीन विकल्प देने की बात



कांग्रेस नेता राहुल गांधी पदमपुर में किसान महापंचायत में उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए। साथ में हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

करते हैं और ये तीन विकल्प हैं पहला भूख, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा आत्महत्या। गांधी ने कहा कि खेती से देश में करोडों लोग जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ किसानों का नहीं, इसमें किसान हैं छोटे

के मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे।

Particulars

Total Expenses

Total Income from operations (net)

Net Profit /(Loss) for the period

(before Tax, Exceptional Items

Net Profit /(Loss) for the period

tax (after Exceptional items)

before Tax (after Exceptional Items)

Net Profit /(Loss) for the period after

Total Comprehensive Income for the

period (Comprising Profit/(Loss) for

the period (after tax) and Other

Equity Share Capital (Face Value: Rs. 10/- each)

Comprehensive Income (after tax)

Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Balance

Earnings Per Share (for continuing

and discontinued operations)

Basic

Diluted:

Note:

ट्रक से टकराई एसयूवी, पांच की मौत

सुबह सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 11 वर्षीय लड़की

सहित पांच लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल भी हो गए। पुलिस

के एक अधिकारी ने बताया कि पीडित पंढपुर स्थित भगवान विटुठल के प्रसिद्ध

मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। पलिस ने बताया कि हादसा सोलापर-पंढरपर मार्ग

पर कासेगांव के पास सुबह करीब छह बजे हुआ। पंढरपुर थाने के निरीक्षक

किरण अवचार ने कहा, हादसे में हताहत हुए लोग कोल्हापुर जिले के चांदगढ़

तहसील के थे। कुल 15 लोग एसयुवी में सवार होकर पंढरपुर में भगवान विट्ठल

संदर्भ : 1. निविदा नोटिस संख्या 45/2020-21. दिनांक 02.01.21 क्रम सं0. 0

STL GLOBAL LIMITED

CIN: L51909DL1997PLC088667

Regd. Office: Unit No. 111, Block No. 1

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2020

Ended

(31.12.2020)

2,483.01

2.360.71

122.99

122.99

122.99

122.99

2,722.18

0.46

0.46

I. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for

the quarter and nine months ended on December 31, 2020 filed with the Stock

Exchanges i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time

The full formats of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine

months ended on December 31, 2020 are available on the company's website at

www.stl-global.com and on the Stock Exchanges websites at BSE at

Ended

(31.12.2020)

4,734.17

4,716.17

42.12

42.12

42.12

42.12

2,722.18

0.16

0.16

First Floor, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065 Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.com, Website: www.stl-globa

2. निविदा संख्या 10200072 नियत तिथि 15.02.2021 उपरोक्त सन्दर्भित निविदा के (खुलने की नियत तिथि 15.02.21 से बदल कर 24.02.21 कर दी

गई है तथा मद की मात्रा व बयाना राशि में बदलाव किया गया है)।

युह शुद्धिपत्र वेबसाइट www.ireps.gov.in पर मुद्रित किया गया है।

पुणे (महाराष्ट्र) (भाषा)। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक एसयुवी शुक्रवार

लोग हैं कृषि कार्य करते हैं। यह 40 लाख करोड रूपये का कारोबार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। उन्होंने कहा, इस कारोबार में और भारत के बाकी कारोबार में फर्क है। बाकी कारोबार में एक या दो उद्योगपितयों का नियंत्रण होता है। लेकिन यह एक व्यापार है जिसे करोड़ों लोग चलाते हैं और यह किसी एक

ये एक बिजनेस है जो भारत माता का बिजनेस है। पुरे देश का और इसमें हिंदुस्तान के 40 प्रतिशत लोगों का व्यापार है। गांधी ने आरोप लगाया कि अगर केन्द्र के नए कृषि कानूनों को लाग किया गया तो इसका फायदा किसानों, मजदरों, मध्यम वर्ग या उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि दो तीन अरबपित उद्योगपितयों को होगा। उन्होंने कहा कि मोदी इस व्यापार को दो तीन लोगों के हाथ में देना चाहते हैं इसलिए ये कान्न लाए गए हैं। उनके अनुसार कोरोना काल में जब सारे धंधे ठप हो गए कृषि ही ऐसा व्यापार था जो बंद नहीं हुआ। किसान ने हिंदुस्तान को बचाया। गांधी ने कहा कि जब उन्होंने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद में कुछ पल का मौन रखा तो भाजपा एक सांसद एक मंत्री आधे मिनट के लिए खड़े नहीं हए... जो शर्म की बात है। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण काल में बेहतर प्रबंधन के लिए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राज्य सरकार

उप म0सा0 प्रबन्धक / सामान्य

(Rs. in Lakhs)

Corresponding Quarter ended

in the previou

year (31.12.2019)

Unaudited

2,878.77

2,744.09

134.68

134.68

134.68

134.68

2,722.18

0.50

0.50

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने 12 किसान संगठनों के साथ चर्चा की इलेक्ट्रोनिक निविदा ई-प्रणाली के अन्तर्गत मदों की आपूर्ति हेत् निविदा आमंत्रण

नई दिल्ली, (विसं)। उच्चतम भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमख मख्य सामग्री प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली—110001 न्यायालय द्वारा गठित समिति ने अंतिम तिथि श्क्रवार को नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर पश्चिम बंगाल समेत देश के आठ राज्यों के 12 किसान संगठनों और किसानों के साथ विचार-विमर्श किया। समिति अब तक सात बैठकें कर चुकी है। तीन सदस्यीय समिति सभी हितधारकों के साथ ऑनलाइन एवं आमने-सामने बैठकर चर्चा कर रही है। समिति ने एक बयान में कहा कि उसने वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से किसानों किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों से वार्ता की। निविदा शर्तें – 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानी www.ireps.gov.in पर देखी इसके मृताबिक, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्म्-कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 317/21 तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसानों एवं 12 किसान संगठनों ने समिति सदस्यों के साथ काननों पर विस्तार से चर्चा की। समिति ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले सभी किसानों, किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों ने तीन कृषि कानुनों के संबंध में अपने विचार एवं सझाव साझा किए। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने गत 12 जनवरी को तीनों विवादास्पद कृषि कानुनों को लागू करने पर दो महीने के लिये रोक लगा दी थी और समिति से सभी हितधारकों से चर्चा के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। तीन नए कृषि काननों को वापस लेने की मांग कर रहे हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले दो महीने से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं।

संजय सिंह ने सरकार

पर लगाया देश की

संपत्ति बेचने का आरोप

द्वारा पेश बजट 2021-22 को

अमीरों का बजट बताते हुए आम

आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने

शुक्रवार को आरोप लगाया कि

सरकार देश की संपत्ति बेच रही है।

राज्यसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा ले

रहे सिंह ने कहा यह बजट देश की

संपत्ति को बेचने के लिए है। आप रेल,

सेल (एसएआईएल), कोयला,

एलआईसी, बैंक, हवाईअड्डे,

बंदरगाह, एफसीआई, बिजली, पानी,

सड़क, बीपीसीएल.... बेच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश की इस संपत्ति का

सुजन 130 करोड़ भारतीयों ने किया है

और यह निजी संपत्ति नहीं है जिसे बेचा

जा सके। सिंह ने कहा प्रधानमंत्री ने

75 दिन से कृषि कानूनों के विरोध में

आंदोलन कर रहे किसानों को

आंदोलनजीवी कह कर उनका मजाक

उडाया है। अब तक कम से कम 175

किसानों की आंदोलन के दौरान जान

भारत में संक्रमण

के 9,309 नए

मामले सामने आए

कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक नए

मामले इस महीने में तीसरी बार

10,000 से नीचे रहे और दैनिक

मृतक संख्या फरवरी में सातवीं बार

100 से नीचे रही।केंद्रीय स्वास्थ्य

मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश

में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन

में 9,309 नए मामले सामने आने के

बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढकर।,08,80,603 हो गई है। मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह आठ

बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस बीमारी के कारण 78

और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों

की कुल संख्या बढकर 1,55,447 हो

गई है। देश में संक्रमित हुए लोगों में से

1,05,89,230 लोग अब तक स्वस्थ

हो चुके हैं। इसी के साथ संक्रमित

लोगों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर

97.32 प्रतिशत हो गई है। कोरोना वायरस के मरीजों की मृत्युदर 1.43 प्रतिशत है। देश में उपचाराधीन लोगों की संख्या डेढ लाख से कम रही। इस समय।,35,926 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.25 प्रतिशत है। भारत में सात अगस्त 2020 को संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो

गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16

सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर

को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70

लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और

20 नवम्बर को 90 लाख और 19

दिसम्बर 2020 को एक करोड़ के पार

चले गए थे।भारतीय आयुर्विज्ञान

अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के

अनुसार, 11 फरवरी तक कुल

20,47,89,784 नमूनों की कोविड-

19 संबंधी जांच की जा चुकी है। इनमें

से 7,65,944 नम्नों की जांच

बृहस्पतिवार को की गई।

नई दिल्ली, (विप्र)। भारत में

जा चुकी है।

नई दिल्ली, (वीअ)। केंद्र सरकार

08 09212045 साईड फ्रेम फ्रीक्शन लाईनर

जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

निविदा सूचना

मात्रा

12.03.21

13.03.21

15.03.21

17.03.21

19.03.21

19.03.21

07.04.21

11749

3697

नग

2750

नग

2750

सेट

162079 नग

54732

नग

4241 नग

12613 नग 23.04.21

द्वारा इच्छुक फर्मों से निम्नलिखित मदों के लिये ई—निविदा आमंत्रित की जाती है:

कंट्रोल रॉड (स्लैक एडजस्टर टाईप

एडजस्टर स्पीन्डल (फोर स्लैक एडजस्टर

रबड़ किट फॉर वी.टी. ए वालव टाईप

बोलस्टर लाईनर ड्राईंग नं0 डब्ल्यू

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

01 07200099A आई आर एस टाइप डोर लाक ड्रॉइंग

ਜਂਹ ਟੀ-5-1-109

भाई आर एस ए 600)

एफ टी आर टी आई एल

डी-85079-एस/3

टाईप आई आर एस ए 600)

कि बोल्ट विद नट स्प्रींग वाशर

बोगी एन्ड पुल रॉड ड्रॉईंग, नं0

क्र.सं निविदा सं0 संक्षिप्त विवरण

09212084

09202459A

03 09212177

05 09212042

07 09212183

09212044

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापनदाताओं / प्रमोटरों के द्वारा अपने व्यवसाय / उत्पादों का अल्पावधि के लिए विज्ञापन / प्रचार करने के लिए सूनहरा अवसर

टेंडर नोटिस सं0 54 / 2020-2021

उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल, SHORT-TERM अवधि हेतू अस्थायी का नाम कियोस्क / स्टैंड / स्पेस के लिए विज्ञापन और विपणन फर्मों / एजेंसियों के लिये प्रचार-प्रसार गतिविधि / विज्ञापन अभियान / विपणन गतिविधि / नमूना-सर्वेक्षण गतिविधि / मानव कैनवसर्स, इत्यादि कार्य के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। इस कार्य हेतु दिल्ली मंडल अपने रेलवे परिसरों, जोकि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित हैं, बहुत ही आकर्षक स्थान पर जैसे कि प्लेटफॉर्म, स्टेशनों के सर्कूलेटिंग क्षेत्र, कॉनकोर्स क्षेत्र, रेलवे कॉलोनियां, रेलवे अस्पताल / हेल्थ युनिट, रेलवे कार्यालय आदि, स्थान उपलब्ध कराएगा जोकि निविदा / उदधरण में भाग लिए बिना आवेदन के आधार पर प्रस्तावक को दिया जाएगा और ऐसे प्रस्तावों का कार्यकाल 1 दिन से लेकर अधिकतम 30 दिन होगा। इच्छुक पार्टियां "सीनियर मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक / पीएस, डीआरएम कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 110055" से संपर्क कर सकती हैं, जो ऐसे प्रस्तावों के लिए नोडल अधिकारी हैं,

| \ | संपर्क करने के लिए रेलवे प्राधिकारी | वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक / पीएस, डीआरएम कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 110055 | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|
| 3. | संपर्क नंबर | 011-23743084, Email id-srdcm.ndls@gmail.com | | | | | |
| 4. | कार्यालय का पता | वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक / पीएस का कार्यालय डीआरएम कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 110055 | | | | | |
| संर | व्या–7PUB/NR(COMM)/44/SI | hort-Term Proposal/2020 दिनांक : 12 फरवरी 2021 296/2021 | | | | | |

रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन एवं विनियमन

रेलवे की आधारिक संरचना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा हुब्बली यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को संपादित करने के लिए 4 दिन (दिनांक 14.02.2021 से 17.02.2021) प्री–नॉन–इंटरलॉकिंग एवं 7 दिन (दिनांक 18.02.2021 से 24.02.2021) नॉन–इंटरलाकिंग का कार्य किया जायेगा जिसके लिए उपयुक्त ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक्स लिये जायेंगे। परिणाम स्वरूप इस अवधि के दौरान निम्नलिखित रेलगाड़ियां निम्नानुसार प्रभावित रहेंगी:-

| रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| रेलगाड़ी सं. एवं रेलगाड़ी का नाम | परिवर्तित मार्ग | तिथियाँ (प्रारंभिक स्टेशन से) | | | | | | | | |
| 06249 यशवंतपुर जं. – हज़रत | वाया दावणगेरे – अमरावति | 17.02, 19.02, 20.02, | | | | | | | | |
| निज़ामुद्दीन त्यौहार स्पेशल | कालोनि जं. – कोझूरु – होसपेटे जं. | 21.02, 22.02 एवं 24.02.2021 | | | | | | | | |
| 06250 हज़रत निज़ामुद्दीन – | वाया होसपेटे जं. — कोद्रूरु — | 16.02, 18.02, 20.02, | | | | | | | | |
| यशवंतपुर जं. सुपरफास्ट स्पेशल | अमरावति कालोनि जं. —दावणगेरे | 21.02, 22.02 एवं 23.02.2021 | | | | | | | | |

रेलगाड़ियों का विनियमन दिनांक 23.02.2021 को प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी संख्या 02629 यशवंतपुर जं. – हज़रत निज़ामुद्दीन सम्पर्क **क्रांति** रेलगाडी को हब्बली स्टेशन पर पहुंचने से पहले 60 मिनट तक रोककर चलाया जायेगा

दिनांक 24.02.2021 को प्रस्थान करने वाली **रेलगाड़ी संख्या 06523 यशवंतपुर जं. – हज़रत निज़ामुद्दीन** हमसफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हुब्बली स्टेशन पर पहुंचने से पहले 60 मिनट तक रोककर चलाया जायेगा दिनांक 23.02.2021 को प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी संख्या 06524 हज़रत निज़ामुद्दीन–यशवंतपूर जं. त्यौहार

विशेष रेलगाड़ी को हब्बली स्टेशन पर पहुंचने से पहले 60 मिनट तक रोककर चलाया जायेगा

नोटः रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड—19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग पड़ने वाले स्टेशन एवं उनकी विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेंबसाइट http://www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें।

रेलमदद वेबसाइट देखें:- (www.railmadad.indianrailways.gov.in) रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

पर हमें फॉलो करें 319/2021

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139



सदैव आपकी सेवा में

(Rs. in Crores)

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

ई-खुली निविदा सूचना

पत्र संख्याः— 128—डब्लू / 280 / निविदा सूचना / 20—21 / डब्लू-। (NIT-18-20-21) दिनांकः 11.02.202

| 1 | कार्य का नाम | दिल्ली—अम्बाला खंड पर सहायक अभियंता करनाल व अंतर्गत ब्रिज No. 27 शाहाबाद मारकंडा और मोहरी मध्य किलो. मीटर 184 / 19—21 पर (3x4.5x3.5)Mtr व आर आर सी बॉक्स के प्रावधान हेतु कार्य। | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 2 | अनुमानित लागत | ₹. 5,52,20,116.32 / − | | | | |
| 3 | समापन अवधि | 04 महीने | | | | |
| 4 | ई-निविदा खोलने और प्रस्तुत करने के लिए दिनांक और समय | 09.03.2021 को 15.00 बजे तक प्रस्तुत करने तथा निविदा खुलने का समय दिनांक 09.03.2021 को 15.00 बजे तक। | | | | |
| 5 | निविदा की वेबसाइट जहां निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है | www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं। | | | | |
| 6 | सामान प्रकार के कार्य | इस कार्य के सामान प्रकार के कार्य "ब्रिज निर्माण पाइप और बॉक्स पुशिंग पद्धिति/भूमिगत केबल/ पाइप लाइन क्रॉसिंग द्वारा कार्य। | | | | |

नए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और सभी संलग्न दस्तावेज निविदा कर्ता द्वारा स्वय सत्यापित किया जाना चाहिए। 323/21

निविदा सूचना

टेल्डब

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि. मंडल यांत्रिक अभियंता / शक्ति, मडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली–110055, निम्नलिखित कार्य के लिए खली निविदा आमंत्रित करते हैं।

| 1 | निविदा संख्या | 221-S/4/2/HK/RR/SSB/ML-IV(2020) | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 2 | कार्य का नाम और कार्य स्थान | वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक, शक्रूरबस्ती के अधीन "चालक व गार्ड रिनंग रूम तथा लॉबी शक्रूरबस्ती की सफाई करना, खाना बनाना व परोसना, बेडरोल आइटम (चादर, तिकया, कम्बल, परदे, रजाई कवर इत्यादि) की धुलाई बागवानी कार्य, कीटनाशक का छिड़काव व रिनंग रूम चौकीदार, दिए गए कार्य के अनुसार अवधि करार से दो वर्ष हेतु खुली ई-निविदा। | | | | | |
| 3 | अनुमानित लागत | रु. 1,90,61,266,92/- तथा GST जैसा लागू होगा (ये जमा राशि केवल नेट बैंकिंग या गुगतान गेटवे के द्वारा ही मान्य होगी। यह राशि एफडीआर या टीडीआर के रूप में मान्य नहीं होगी रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2015/CR-I/CT/5/1 dated 31.08.2016) के आदेशानुसार। | | | | | |
| 4 | बयाना राशि | ₹. 2,45,310/- | | | | | |
| 5 | निविदा फार्म का मूल्य | रु. 5,900/- रुपए GST@18% सहित | | | | | |
| 6 | कार्य अवधि | अवधि कार्य आरंभ होने से दो वर्ष। | | | | | |
| 7 | निविदा प्रपत्र जमा करने तथा खुलने की तिथि व समय | दिनांक 05.03.2021, 12.00 बजे तक तथा खुलने का समय 12.15 बजे | | | | | |
| 8 | निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने के इंटरनेट साइट | उपरोक्त निविदा IREPS साईट पर उपलब्ध है जो कि हैं– www.ireps.gov.in | | | | | |

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

🖝 महत्वपूर्ण सूचना 👈

मऊ एवं आनन्द विहार (ट) के बीच (सप्ताह में दो दिन) विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारम्भ

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि मऊ और आनंद विहार (ट) के बीच एक सुपरफास्ट स्पेशल (सप्ताह में दो दिन) रेलगाड़ी का उद्घाटन दिनांक 14.02.2021 को सम्पन्न किया जायेगा। उद्घाटन सेवा की रेलगाड़ी संख्या व समय-सारणी निम्नानुसार होगी:-

उद्घाटन सेवा विशेष रेलगाड़ी की समय-सारणी **05137/05138 मऊ - आनन्द विहार (ट) - मऊ** विशेष एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

| रेलगाड़ी सं.: 05137 | | े स्टेशन † | रेलगाड़ी सं.: 05138 | | | |
|---------------------|----------|---|---------------------|----------|--|--|
| आगमन | प्रस्थान | 1 Secsion | आगमन | प्रस्थान | | |
| | 17:10 | मऊ | 01:15 | | | |
| 18:00 | 18:05 | औंड़िहार | 00:10 | 00:15 | | |
| 19:20 | 19:25 | जौनपुर | 23:05 | 23:10 | | |
| 21:30 | 21:35 | सुल्तानपुर | 20:30 | 20:35 | | |
| 00:05 | 00:15 | लखनऊ | 17:55 | 18:05 | | |
| 01:45 | 01:50 | कानपुर | 16:20 | 16:25 | | |
| 07:15 | | आनन्द विहार (ट) | | 11:00 | | |
| चलने वे | दिन: 0 | आनन्द विहार (ट) 5137 मऊ से दिनांक 14.02.20 (ट) से दिनांक 15.02.2021 (सोमवार |)21 (रविवार | | | |

इस रेलगाड़ी के उद्घाटन के पश्चात् दिनांक 19.02.2021 से इसकी

नियमित सेवा शुरू की जायेगी जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-नियमित विशेष रेलगाड़ी की समय-सारणी **05139/05140 मऊ - आनन्द विहार (ट) - मऊ**

| रेलगाड़ी | सं.: 05139 | े स्टेशन ↑ | रेलगाड़ी सं.: 05140 | | | |
|----------|------------|-----------------|---------------------|----------|--|--|
| आगमन | प्रस्थान | † ECSIOI | आगमन | प्रस्थान | | |
| | 20:50 | मऊ | 06:20 | | | |
| 21:45 | 21:47 | औंड़िहार | 05:08 | 05:10 | | |
| 23:05 | 23:10 | जौनपुर | 04:15 | 04:20 | | |
| 01:40 | 01:45 | सुल्तानपुर | 01:40 | 01:45 | | |
| 04:10 | 04:20 | लखनऊ | 23:10 | 23:20 | | |
| 06:10 | 06:15 | कानपुर | 21:40 | 21:45 | | |
| 11:30 | | आनन्द विहार (ट) | | 16:45 | | |

चलने के दिन: 05139 मऊ से दिनांक 19.02.2021 से प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को एवं **05140 आनन्द विहार (ट) से** दिनांक 20.02.2021 से प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को। स्थान : प्रथम वाता, 2 टीयर वाता, 3 टीयर वाता, शयनयान एवं द्वितीय श्रेणी (आरक्षित)।

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाईन सं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें।

नोटः रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन

आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। रेलमदद हेल्पलाईन नं. १३९ 🔹 रेलमदद वेबसाइटः www.railmadad.indianrailways.gov.in देखें एवं रेलमदद ऐप डाउनलोड करें।



आपकी सुविधा - हमारा ध्येय हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिले ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

. There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and nine months ended on December 31, 2020.

www.bseindia.com and at NSE at www.nseindia.com respectively.

For and on behalf of the Board of Directors STL Global Limited

Qate: 12th February, 2021

Sh. Sanjiv Kumar Aggarwa (DIN: 00227251)

Made in India with Pride

RI(O AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. & Corp. Office: 38 KM Stone, Delhi-Jaipur Highway, Gurugram -122 001, Haryana (INDIA) Tel: 0124 2824000, Fax: 0124 2824200, email: cs@ricoauto.in Website: www.ricoauto.in. CIN: L34300HR1983PLC023187

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

| | | : | STANDALON | VE. | CONSOLIDATED | | | |
|------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| C. | | Quarter | ended | Nine months ended | Quarter ended | | Nine months ended | |
| SI. No. | PARTICULARS | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | |
| MARKET IN | | Unau | dited | Unaudited | Unaudited | | Unaudited | |
| 1. | Revenue from Operations | 388.36 | 296.33 | 858.60 | 445.91 | 342.38 | 986.77 | |
| 2. | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items) | 6.17 | 5.65 | (19.17) | 8.88 | 10.29 | (27.78) | |
| 3. | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items) | 6.11 | 5.41 | (21.68) | 8.82 | 9.94 | (30.41) | |
| 4. | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items) | 3.82 | 7.56 | (15.07) | 4.49 | 10.62 | (24.67) | |
| 5. | Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)] | 1.83 | 6.58 | (16.47) | 2.07 | 10.64 | (25.59) | |
| 6. | Equity Share Capital of Re.1/- each | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | |
| 7. | Earning Per Share (not annualised*) | | 0.790.000 | 1.000.00 | NO.WS10.DV. | 375000000 | 1031.555 | |
| | - Basic (Rs.) - Diluted (Rs.) | 0.28* 0.28* | 0.56* 0.56* | (1.11)* (1.11)* | 0.32* 0.32* | 0.78* 0.78* | (1.82)* (1.82)* | |

NOTES:

Place: Gurugram

Date: 12th February, 2021

- 1. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter were approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 12th February, 2021.
- 2. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2020, filed with the Stock Exchanges on 12th February, 2021 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the Company's website at www.ricoauto.in.

E-mail ID for redressal of investor complaint: cs@ricoauto.in

For RICO AUTO INDUSTRIES LIMITED

Arvind Kapur Chairman, CEO & Managing Director DIN: 00096308





Bond sale devolves as market seeks high yields

Gopika Gopakumar gopika.g@livemint.com MUMBAI

day after the success of a special bond auction, the market on Friday saw the ₹26,000 crore bond auction devolve, as the Reserve Bank of India decided not to pay the high yields demanded by the market.

The central bank said primary dealers who underwrite auctions bought bonds worth ₹6,736 crore of 6.22% 2035 bonds at the weekly auction.

Out of the government securities worth ₹11,000 crore put up for auction, the government sold ₹4.263.725 crore of 2035 notes at 6.55%; ₹5,625 crore of 4.48% 2023 bonds, compared to ₹5,000 crore of bonds offered at 4.67%; ₹7,000 crore of 2033 floating rate bonds (FRB) compared to ₹5,000 crore worth bonds offered at 4.63%; and ₹3,500 crore of 6.67% 2050 bonds compared to ₹5,000 crore offered at

After the auction, the 10-year bond yield closed at 5.99%, up three basis points from its previous close.

On Thursday, RBI intervened to pull down the 10-year benchmark rate to below 6% in a special auction of government securities. The central bank accepted bids for 10-year and five-year bonds at 5.97% and 5.54%, respectively in the auction of securities that it refused to sell last week at higher yields demanded by the

India's Ajay Mathur to take over as ISA chief

His appointment is set to be finalized after Mauritius withdrew from race

Utpal Bhaskar utpal.b@livemint.com NEW DELHI

jay Mathur, who heads the New Delhi-based The Energy and Research Institute, is set to become the next director general of the International Solar Alliance (ISA), with Mauritius withdrawing from the race, said two people aware of the development.

ISA, co-founded by India and France, is the first treaty-based international government organization to be based in India. The alliance has become a significant public policy tool for India and is considered a counter to China's ambitious One Belt One Road initiative.

A special virtual assembly of ISA is scheduled for 15 February where Mathur's name is slated to be approved and announced, with him taking charge from 15 March, said one of the two people cited above requesting anonymity. Mathur will replace Upendra Tripathy, a former secretary in India's ministry of new and renewable energy (MNRE).

Mint reported on 21 December about India through MNRE proposing Mathur's candidature. The director-general has a four-year term, which can be renewed for an additional term.

"With Mauritius' withdrawal, Ajay Mathur is the only person remaining for the top post. He is the right candidate for the job, given his exhaustive experience on the global stage and the technical expertise he possesses," said one of the two people mentioned above requesting anonymity.

Mathur is also a member of the Prime Minister's Council on Climate Change and



Ajay Mathur, who heads The Energy and Research Institute, is expected to be appointed as ISA's next director general on 15 February. He will take charge from 15 March.

was earlier the director general of the Bureau of Energy Efficiency. Apart from working at the World Bank, Mathur was also president of Suzlon Energy Ltd.

"Ajay Mathur is the right person for this job," said an Indian government official, the second person cited above, who also did not want to be named.

Mathur did not comment. Queries emailed to the spokespersons of ISA and MNRE on late Thursday night remained unanswered. An external spokesperson for Teri also did not comment.

The ISA first proposed by Prime Minister Narendra Modi forms an important part of India's efforts at a global leadership role on tackling climate change. "We are already part of international groupings such as the G20 and BRICS. The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts," finance minister Nirmala Sitharaman said in her recent budget speech.

India and France were re-elected as the president and co-president respectively of the ISA for a two-year term at its third assembly in October last year.

The ISA framework agreement was opened for signing up at the Conference of the Parties (COP-22) at Marrakesh in November 2016. As many as 90 countries have signed the framework agreement, while 73 have ratified it. Apart from working towards setting up a World Solar Bank (WSB), which is also expected to be headquartered in India, ISA is also the nodal agency for implementing India's global electricity grid plan, One Sun One World One Grid, that seeks to transfer solar power generated in one region to feed the electricity demands of others.

RBI tightens norms for investments in NBFCs from non-FATF nations

shayan.g@livemint.com MUMBAI

he Reserve Bank of India (RBI) on Friday tightened the rules governing investments in non-bank lenders originating from countries that are not compliant with global standards on prevention of money laundering.

"Investments in non-banking financial companies (NBFCs) from FATF non-compliant jurisdictions shall not be treated at par with that from the compliant jurisdictions," RBI said.

FATF, or the Financial Action Task Force, is the inter-governmental watchdog for global money laundering and terrorist financing. It periodically identifies jurisdictions with weak measures to combat money laundering and terrorist financing in two of its publications: High-risk jurisdictions subject to a Call for Action, and jurisdictions under Increased Monitoring. Put together, they have identified 17 countries at present.

These rules, RBI said, will apply to new investors from or through such noncompliant jurisdictions, whether in existing nonbank lenders on in those seeking registrations.

"New investors from or through non-compliant jurisdictions, whether in existing NBFCs

or in companies seeking certification of registration (COR), should not be allowed to directly or indirectly acquire 'significant influence' in the investee," it said.

According to the new rules, fresh investors from non-compliant jurisdictions should hold less than the threshold of 20% of the voting power, including



RBI says investments in shadow banks from FATF non-compliant jurisdictions shall not be treated on a par with that from compliant jurisdictions.

potential voting power in an NBFC. The central bank pointed out that potential voting power could arise from instruments that are convertible into equity, other instruments with contingent voting rights, and contractual

arrangements that grant investors voting rights in the future. However, investors in existing NBFCs holding According to the their investments prior to new rules, fresh the classification of the investors should source or intermediate jurhold less than the isdiction as FATF nonthreshold of 20% compliant, will be able to of the voting continue with the invest-

power in an NBFC

Reports had surfaced last vear about RBI's decision to not allow financial companies to be set up through funds from such nations.

tional investments.

ments or bring in addi-


According to a report in *The Economic* Times in October, the central bank said financial companies cannot be set up with foreign direct investment from Mauritius or other countries that are non-FATF compliant.

Motherson Sumi sees robust recovery in Oct-Dec Disney+Hotstar has 25 mn users

malyaban.g@livemint.com **NEW DELHI**

otherson Sumi Systems Ltd, a leading automotive component manufacturer, posted a sharp rebound in profit and revenue for December quarter, driven by recovery in vehicle production globally.

The Noida-based company reported its highest ever revenue during the quarter, indicating strong recovery in operations to pre-covid level. Motherson's consolidated net profit for the quarter increased



272.68% from the year-ago period to ₹1,268.31 crore as production in its factories across geographies, including India, registered pre-pandemic-level capacity utilization. Profit in the year-ago period stood at ₹304.32 crore, and improved

substantially on a sequential basis from ₹474 crore in the September quarter.

The manufacturer returned to profitability after reporting an unprecedented loss of ₹1,121.60 crore in the June quarter, as sales of automobiles picked up gradually in India, Europe and other developed markets, due to easing curbs.

Revenue from operations grew l3.9% to ₹17,092.40 crore as vehicle production in India and other countries gathered momentum. Pointing towards a robust recovery in operations on a sequential basis, revenue jumped from ₹14,957.21 crore in the September quarter. As a result of revenue growth and cost cutting initiatives, the

operating profit or earnings before interest, taxes, depreciation and amortization also jumped 55.9% from the yearago period to ₹2,041 crore. According to the company, most of its production facilities are running at over pre-covid level of capacity utilization.

Vehicle manufacturing, especially passenger vehicles. in India improved sharply as Original Equipment Manufacturers increased production to replenish stocks at dealerships after recovery in retail sales.

feedback@livemint.com NEW DELHI

hree out of 10 paid subscribers of Walt Disney's streaming video service are in India where it operates as Disney+ Hotstar, the entertainment conglomerate's quarterly earnings report showed.

Disney+ Hotstar has around 25 million paid users out of Disney's global total of 94.9 million, the company said. The figure however, also includes Indonesia where the service has around 2.5 million subscribers.

In March 2020, Hotstar, the

Star network, was rebranded as Disney+ Hotstar in India and a where, the service

video streaming service of the

is known as Dis-Meanwhile,

rival US streaming giant Netflix may close 2020 with 4.6 million paid subscribers in India, according to a recent

analysis by Media Partners Asia (MPA), an independent provider of research, advisory and consulting services across media, telecom, sports and

entertainment industries in Asia Pacific. Amazon Prime Video's subscriber base is estifew other Asian markets. Else- | mated at 17 million by MPA.

Walt Disney Much of Disney's reported revenues subscriber growth is coming from unpaid users in Asia, dragging

of \$1.62 billion for the quarter ended 2 January. There is however, a downside to the down its revenue growth in subper user by 28% scriber base, with much of it coming from unpaid users

> in Asia. That has led to a drop in average revenue per user (Arpu), which fell 28% to \$4.03 this quarter for the service in all

STL GLOBAL LIMITED

CIN: L51909DL1997PLC088667 Read, Office: Unit No. 111, Block No. 1

First Floor, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065 Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.com, Website: www.stl-global.com

| EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| QUARTER & NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 20, (Rs. in Lak | | | | | | | | | |
| Particulars | Quarter Ended (31.12.2020) Unaudited | Nine Months Ended (31.12.2020) Unaudited | Corresponding Quarter ended in the previous year (31.12.2019) Unaudited | | | | | | |
| Total Income from operations (net) | 2,483.01 | 4,734.17 | 2,878.77 | | | | | | |
| Total Expenses | 2,360.71 | 4,716.17 | 2,744.09 | | | | | | |
| Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items) | 122.99 | 42.12 | 134.68 | | | | | | |
| Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items) | 122.99 | 42.12 | 134.68 | | | | | | |
| Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional items) | 122.99 | 42.12 | 134.68 | | | | | | |
| Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) | 122.99 | 42.12 | 134.68 | | | | | | |
| Equity Share Capital (Face Value: Rs. 10/- each) | 2,722.18 | 2,722.18 | 2,722.18 | | | | | | |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of previous year | | | _ | | | | | | |
| Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) Basic: | 0.46 | 0.16 | 0.50 | | | | | | |

Note:

Diluted

Place : Faridabad

Date: 12th February, 2021

1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results fo the quarter and nine months ended on December 31, 2020 filed with the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time. The full formats of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2020 are available on the company's website a www.stl-global.com and on the Stock Exchanges websites at BSE a www.bseindia.com and at NSE at www.nseindia.com respectively

0.46

There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and nine months ended on December 31, 2020.

For and on behalf of the Board of Directors of STL Global Limited

0.16

0.50

Place: New Delh

Sh. Sanjiv Kumar Aggarwa (DIN: 00227251



Sustainable Habitat Development to Support Aatamnirbhar Bharat

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE PERIOD ENDED 31ST DECEMBER, 2020

| (₹ in Crore | | | | | | | | | (₹ in Crore) | | | |
|---|---------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | STANDALONE CONSOLIDATED | | | | | | | | | | |
| Particulars | Quarter Ended | | Nine Month Ended Year Ende | | Year Ended | Quarter Ended | | Nine Month Ended | | Year Ended | | |
| T di dodiais | 31.12.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2020 |
| | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Audited) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Reviewed) | (Audited) |
| Total Income from Operations (Net) | 1,845.19 | 1,856.78 | 1,793.54 | 5,475.20 | 5,643.63 | 7,532.12 | 1,845.19 | 1,856.78 | 1,793.54 | 5,475.20 | 5,643.63 | 7,532.12 |
| Net Profit for the Period (before tax & exceptional items) | 584.91 | 608.97 | 354.10 | 1,464.76 | 1,629.18 | 2,174.53 | 584.97 | 608.93 | 354.05 | 1,464.73 | 1,629.01 | 2,174.31 |
| Net Profit for the Period before tax (after exceptional items) | 584.91 | 608.97 | 354.10 | 1,464.76 | 1,629.18 | 2,174.53 | 584.97 | 608.93 | 354.05 | 1,464.73 | 1,629.01 | 2,174.31 |
| Net Profit for the Period after tax (after exceptional items) | 391.53 | 457.29 | 205.94 | 1,052.25 | 1,267.46 | 1,708.42 | 391.59 | 457.25 | 205.89 | 1,052.22 | 1,267.29 | 1,708.20 |
| Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)) | 382.99 | 442.31 | 204.98 | 1,024.42 | 1,259.38 | 1,691.78 | 383.05 | 442.27 | 204.93 | 1,024.39 | 1,259.21 | 1,691.56 |
| Paid up Equity Share Capital (FV - ₹10/- each) | 2001.90 | 2001.90 | 2001.90 | 2001.90 | 2001.90 | 2001.90 | 2,001.90 | 2,001.90 | 2,001.90 | 2,001.90 | 2,001.90 | 2,001.90 |
| Earning Per Share (FV - ₹10/- each) | | | | | | | | | | | | |
| (I) Basic (not annualised) | 1.96 | 2.28 | 1.03 | 5.26 | 6.33 | 8.53 | 1.96 | 2.28 | 1.03 | 5.26 | 6.33 | 8.53 |
| (ii) Diluted (not annualised) | 1.96 | 2.28 | 1.03 | 5.26 | 6.33 | 8.53 | 1.96 | 2.28 | 1.03 | 5.26 | 6.33 | 8.53 |

1. The above financial results of the company have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th February, 2021. These financial results have been subject to Limited review by the Statutory Auditors of the Company.

2. The above is an extract of the detailed format of quarter/nine months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the quarter/nine months financial results are available on the websites of BSE Limited (URL: www.bseindia.com/corporates), National Stock Exchange of India Limited (URL: www.nseindia.com/corporates) and the same is also available on the company's website (URL: www.hudco.org).

D. Guhan



HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

REGD. OFFICE: Hudco Bhawan, Core 7A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi -110003





not just about business. It's also about the business of life.

Growth is...On.

Think Ahead. Think Growth

Follow us:

f mint.live livemint livemint www.livemint.com